

जमालपुर के रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

8041. श्री रामावतार शास्त्री :  
 श्री क० मि० मधुकर :  
 श्री भोगेन्द्र झा :  
 श्री चन्द्र शंकर सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर (पूर्वी रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों ने हाल ही में अधिकारियों के सामने प्रदर्शन किया था और यह मांग की थी कि उन्हें तीन महीने का वेतन अकाल-पेशगी के रूप में दिया जाये और इसे 36 मासिक किस्तों में वसूल किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे कर्मचारियों को अकाल भत्ता देने का सरकार का विचार है, और कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनावा) :

(क) कोई प्रदर्शन नहीं किया गया, लेकिन बर्द, 67 में एक अभ्यावेदन दिया गया था।

(ख) ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जो रेल-कर्मचारी सूखाग्रस्त क्षेत्र में तैनात हैं या जिनके परिवार ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें तीन महीने का वेतन अग्रिम के रूप में दे दिया जाये। यह अग्रिम वेतन 24 किस्तों में वसूल किया जायेगा।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**General Manager and Chief Superintendent of Durgapur Steel Plant**

8042. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether the General Manager of the Durgapur Steel Plant was asked to resign on the 17th July, 1967;

(b) whether the Chief Superintendent of the Coke Ovens Plant has also been served with a termination notice; and

(c) if so, the charges against them and whether any inquiries were instituted against the above officers?

**The Minister of Steel Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy):** (a) No, Sir. It was decided to remove the present General Manager of Durgapur Steel Plant and HSL had decided to terminate his contract of service with effect from the 19th July, 1967. He was, however, given the choice to resign earlier, if he wanted to. On the 18th July, 1967, he obtained interim injunction orders from the Calcutta High Court restraining the Government and HSL from removing him from the post of General Manager. The matter is at present *sub-judice*.

(b) It was also decided to terminate the services of the Chief Superintendent (Coke & Iron), Durgapur Steel Plant with effect from the 19th July, 1967. He, however, tendered his resignation from the service of HSL and was relieved on the 19th July.

(c) Does not arise. The President has the authority to remove the General Manager under Article 97(A) of the Articles of Association of HSL. HSL decided to terminate their contract of services in terms of his Agreement with the Company.

उत्तर रेलवे में संस्कृत जानने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

8043. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :  
 श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :  
 श्री प्रकाशवीर शास्त्री :  
 डा० सूर्य प्रकाश पुरी :  
 श्री आत्म दास :  
 श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे